



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट थाना सिरसागंज दिनांक 25-08-21 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना सिरसागंज पुलिस टीम का बड़ा खुलासा पिता देवीराम ने ही अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पुत्री नेहा व प्रेमी उत्तम की की थी हत्या ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व तलाश वाँछित अभियुक्तगण के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज मय हमराही फोर्स के मुखविर खास की सूचना पर थाना हाजा के मु0अ0स0 472/2021 धारा 364 भादवि में वाँछित अपराधी देवीराम पुत्र लालाराम निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद को मल्हापुर मोड से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त देवीराम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे गाव के सुगर सिंह का पुत्र उत्तम के सम्बन्ध मेरी पुत्री कु0 नेहा से थे दिनांक 31.07.21 को सुबह करीब 10-11 बजे के बीच उत्तम मेरी पुत्री नेहा को लेकर पुरानी दिल्ली चला गया था जिसकी सूचना मुझे उत्तम के दोस्त वीनेश पुत्र विनोद कुमार दिवाकर निवासी ग्राम कुतुकपुर थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद ने दी कि उत्तम व नेहा इस समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं । मेरे पास फोन आया था मैंने उनको वही रुकने को बोला है वीनेश के बताये अनुसार मैं दिनांक 01.08.21 को अपने साथ 1-श्यामबिहारी पुत्र अनवर सिंह 2- रोहित पुत्र श्यामबिहारी 3-राहुल पुत्र राकेश 4-अमन उर्फ मोनू पुत्र नेत्रपाल 5- वीनेश पुत्र विनोद कुमार 6-गाडी चालक गुंजन की ईको गाडी से पुरानी दिल्ली गया । वहाँ से उत्तम व नेहा को अपने साथ लेकर बाकलपुर भट्टे पर लगभग 02.00 बजे रात्रि में वापस आ गया । मैंने उत्तम व अपनी पुत्री नेहा को काफी समझाया लेकिन कोई बात नहीं बनी। मेरे साथ में गये सभी लोग मुझे व उत्तम एवं नेहा को बाकलपुर भट्टे पर ही छोड़कर गुंजन की गाडी से वापस आ गये। जब मेरे गाँव के सभी लोग वापस लौट गये तब मैंने अपने छोटे भाई शिवराज को फोन करके पूरी बात बताई और बुलाया मेरा भाई पिनहाट के पास बाबा बर्फानी कोल्ड स्टोर में मुनीम की नौकरी करता है। कुछ समय बाद मेरा भाई बाकलपुर भट्टे पर चार पहिया वाहन से आ गया । मैंने तथा मेरे भाई ने पुत्री नेहा व उत्तम को काफी समझाया लेकिन दोनों लोग मानने को तैयार नहीं हुये। तब मैं व मेरा भाई शिवराज पुत्री नेहा व उत्तम को लेकर बटेश्वर यमुना जी के पुल पर आ गये। मैंने एक एक कर पहले अपनी पुत्री नेहा को गाडी से उतारकर अपने भाई के सहयोग से उसकी गला दबाकर हत्या कर उसके शव को यमुना में फेंक दिया। उत्तम ने काफी शोर मचाया तब मैंने अपने भाई के सहयोग से उसको भी गाडी से उतारकर गला दबाकर हत्या कर शव को यमुना में फेंक दिया था यमुना नदी उस समय काफी उफान पर थी। मेरा भाई शिवराज गाडी लेकर पिनहाट चला गया था मैं पैदल पैदल अपने गाँव जहांगीरपुर आ गया था। गाडी का नम्बर चालक का नाम मुझे नहीं पता है। मेरा भाई शिवराज ही लेकर आया था उसको ही जानकारी है।ये सब मैंने अपनी इज्जत की खातिर किया है। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। तथा वाद पूछताछ अभियुक्त की निशा देही पर एक अदद गमछा (घटना में प्रयुक्त) वरामद किया गया । अभियुक्त देवीराम उपरोक्त से वाद पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः--

1-देवीराम पुत्र लालाराम निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त देवीराम उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1-एक अदद गमछा (घटना में प्रयुक्त) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.SHO प्रवीन्द्र कुमार सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद

2. व0उ0नि0 मौ0 खालिद थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद

4. का0 84 राजेश कुमार, का.797 कौशलेन्द्र सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद